



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 337] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 1969/आश्विन 7, 1891

No. 337] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 1969/ASVINA 7, 1891

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रन्थ संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th September 1969

S.O. 4045—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of seeds of the varieties specified in column (1) of the Table below, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the varieties specified in the said column to be notified varieties for the purposes of the said Act in respect of the areas specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, namely:—

TABLE

Variety	Areas for which notified
I	2
Paddy	
1. Taichung-65	Mysore.
2. Taichung Native-I	Bihar, Andhra Pradesh and W. Bengal.
3. IR-8	Throughout India except Gujarat.
4. Jaya	Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal, Orissa, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Mysore, Kerala and Andhra Pradesh.

1	2
5. Padma	Bihar (Summer), West Bengal (Boro), Assam, Orissa (Early Summer).
6. CO-25 }	Kerala (Palghat District)
7. ADT-27 }	
8. IR-49	Uttar Pradesh
9. Jhona-351	Haryana
10. Basmati-217	Haryana

Wheat

1. Sharbati Sonara	Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Delhi and Himachal Pradesh.
2. Kalyan Sona	Jammu & Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh, Delhi, West Bengal, Madhya Pradesh, Bihar, Orissa, Maharashtra, Andhra Pradesh and Mysore.
3. S-331	Punjab, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Rajasthan and Madhya Pradesh.
4. Sonalika	Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Maharashtra, Andhra Pradesh and Mysore.
5. Sated Lerm	Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan.
6. NP-884 }	Bihar
7. NP-852 }	
8. C-306	Haryana and Punjab.
9. PV-18	Haryana and Punjab.

Maize

1. Hybrid Maize Ganga-1	Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and Rajasthan.
2. Hybrid Maize Ganga-101	Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Orissa and West Bengal.
3. Hybrid Maize Ranjit	Southern Rajasthan and Madhya Pradesh.
4. Hybrid Maize Ganga-3	Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and Rajasthan.
5. Hybrid Maize Ganga Safed-2	Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh.
6. Hybrid Maize Him-12	Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh and Assam.
7. Hybrid Maize Hi-Starch	Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Maharashtra, Madhya Pradesh, Mysore and Tamil Nadu.
8. Hybrid Ganga-5	Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra.
9. Ambar Composite Makka	Madhya Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, Mysore, Maharashtra, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, West Bengal, Assam and Jammu and Kashmir.
10. Vijay Composite Makka	Punjab, Uttar Pradesh and Haryana.
11. Sona Composite Makka	Punjab and Western Uttar Pradesh.
12. Jawahar Composite Makka	Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh, Orissa, Andhra Pradesh, Mysore and Maharashtra.
13. Kisan Composite Makka	Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal.
14. Vikran Composite Makka	Haryana and Rajasthan.

1

2

Jowar

- | | | |
|------------------------|-----------|---|
| 1. Hybrid Jowar CSH-I | | Andhra Pradesh, Mysore, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Orissa and Tamil Nadu. |
| 2. Hybrid Jowar CSH-II | | Andhra Pradesh, Mysore, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Orissa. |
| 3. Swarna | | Andhra Pradesh, Mysore, Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Orissa and Tamil Nadu. |

Bajra

- | | | |
|-----------------------|-----------|--|
| 1. Hybrid Bajra No. 1 | | Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Tamil Nadu and Mysore. |
| 2. Hybrid Bajra No. 2 | | Gujarat, Maharashtra, Mysore and Rajasthan. |
| 3. Hybrid Bajra No. 3 | | Gujarat, Maharashtra, Mysore and Rajasthan. |
| 4. Hybrid Bajra No. 4 | | Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, Tamil Nadu, Rajasthan, Mysore and Maharashtra. |

Cotton

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| 1. Buri-147 | } | Maharashtra |
| 2. Buri-1007 | | |
| 3. AK-235 | | |
| 4. AK-277 | | |
| 5. Virnar 197-3 | | |
| 6. Deviraj 170-C-2 | } | Rajasthan |
| 7. Laxmi | | |
| 8. Y-1 | | |
| 9. Gaorani-22 | | |
| 10. Sanjay | | |
| 11. Cotton 320-F | | |
| 12. Digvijay | | |

Soyabean

- | | | |
|-------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. Clark-63 | | Punjab and Madhya Pradesh. |
| 2. Bragg | | Mysore, Punjab and Madhya Pradesh |

Bhindi

- | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|
| 1. Pusa-sawni Bhindi | | Uttar Pradesh and Delhi. |
|----------------------|-----------|--------------------------|

Groundnut

- | | | |
|----------|-----------|-------------|
| 1. SB-XI | | Maharashtra |
|----------|-----------|-------------|

This notification shall come into force on the 1st October, 1969.

[No. F. 4 (20)/68-Seeds (Dev.)]

S. O. 4046.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 10 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, hereby specifies the limits of germination and purity mentioned in columns (2) and (3) respectively of the Table, as the minimum limits of germination and

purity with respect to the seed of the notified varieties mentioned in the corresponding entries in column (1) of the said Table, namely :—

TABLE

Variety	Minimum limit of germina- tion in percent	Minimum limit of purity in percent
1	2	3
Paddy		
1. Taichung-65	70	97
2. Taichung Native-1	70	97
3. IR-8	70	97
4. Jaya	70	97
5. Padma	70	97
6. CO-25	70	97
7. ADT-27	70	97
8. IR-49	70	97
9. Jhona-351	70	97
10. Basmati-217	70	97
Wheat		
1. Sharbati Sonara	80	97
2. Kalyan Sona	80	97
3. S-331	80	97
4. Sonalika	80	97
5. Safed Lerma	80	97
6. NP-884	80	97
7. NP-852	80	97
8. C-306	80	97
9. PV-18	80	97
Maize		
1. Hybrid Maize Ganga-1	80	97
2. Hybrid Maize Ganga-101	80	97
3. Hybrid Maize Ranjit	80	97
4. Hybrid Maize Ganga-3	80	97
5. Hybrid Maize Ganga-Safed-2	80	97
6. Hybrid Maize Him-123	80	97
7. Hybrid Maize Hi-Starch	80	97
8. Hybrid Ganga-5	80	97
9. Ambar Composite Makka	80	97
10. Vijay Composite Makka	80	97
11. Soid Composite Makka	80	97
12. Jawahar Composite Makka	80	97
13. Kisan Composite Makka	80	97
14. Vikram Composite Makka	80	97
Jowar		
1. Hybrid Jowar CSH-1	70	97
2. Hybrid Jowar CSH-2	70	97
3. Swarna	70	97
Bajra		
1. Hybrid Bajra No. 1	70	96
2. Hybrid Bajra No. 2	70	96
3. Hybrid Bajra No. 3	70	96
4. Hybrid Bajra No. 4	70	96
Cotton		
1. Buri-147	65	95
2. Buri-1007	65	95
3. AK-235	65	95
4. AK-277	65	95
5. Vimar-197-3	65	95
6. Devira 170-C-2	65	95

I	2	3
7. Laxmi	65	95
8. Y-1	65	95
9. Gaorani-22	65	95
10. Sanjay	65	95
11. Cotton 320-F	65	95
12. Digvijay	65	95
<i>Soyabean</i>		
1. Clark-63	70	96
2. Bragg	70	96
<i>Bhindi</i>		
1. Pusa-Sawni Bhindi	60	98
<i>Groundnut</i>		
1. SB-XI	70	97

2. This notification shall come into force on the 1st October, 1969.

[No. 4 (20)/68-Seeds Dev.]
S.M.H. BURNEY Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1969

एस० आ० 4047—बीज अधिनियम, 1966(1966 का 54)के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय बीज समिति के परामर्श के पश्चात् इस धारणा पर पहुँची है कि निम्न तालिका के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट कृषि के लिए बेचे जाने वाले बीजों की श्रेणी को नियमित करना आवश्यक और समीचीन है, एतद् द्वारा उपरोक्त तालिका के स्तम्भ (2) के तदनुरूपी इन्वराज में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के विषय में उपरोक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए अधिसूचित की जाने वाली किस्मों को उपर्युक्त स्तम्भ में विनिर्दिष्ट किस्में घोषित करती है, अर्थात्—

[पत्र संख्या 4 (20)/68—बीज विकास]

तालिका

किस्म	जिन क्षेत्रों के लिए अधिसूचित किया गया
1	2
धान	
(1) तार्ई चुंग-65	मैसूर ।
(2) तार्ईचुंग नेटिव-1	बिहार, आन्ध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ।
(3) आई आर-8	गुजरात को छोड़कर सारे देश में ।
(4) जया	पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिल-नाडू, मैसूर तथा केरल ।

1

2

(5) पदमा	बिहार (ग्रीष्म), पश्चिम बंगाल (बोरी), असम, उड़ीसा (ग्रीष्म के शुरू में) ।
(6) सी० ओ०-25	} केरल (जिला पालघाट) ।
(7) ए० डी० टी० -27	
(8) आई आर० -49	उत्तर प्रदेश
(9) मोना 351	हरियाणा ।
(10) बासमती-217	हरियाणा ।
पेहूँ	
(1) शरबती सोनारा	उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य- प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश ।
(2) कल्याणसोना	जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर ।
(3) एस० 331	पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश ।
(4) सोनालिका	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर ।
(5) सेफ्ड लरमा	पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान ।
(6) एन पी-884	} बिहार ।
(7) एन पी-852	
(8) सी०-306	हरियाणा तथा पंजाब ।
(9) पी० बी०-18	हरियाणा तथा पंजाब ।
मक्का	
(1) संकर मक्का गंगा-1 .	. पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान ।
(2) संकर मक्का गंगा-101	. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल ।
(3) संकर मक्का रणजीत .	. दक्षिण राजस्थान तथा मध्य प्रदेश ।
(4) संकर मक्का गंगा-3 .	. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान ।
(5) संकर मक्का गंगा सैफुड-2	. उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश ।
(6) संकर मक्का हिम-123	. जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा असम ।

1

2

- | | |
|-----------------------------|--|
| (7) संकर मक्का हि-स्टाचै . | . उत्तर प्रदेश, मैसूर तथा हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा तमिल-नाडु । |
| (8) संकर गंगा-5 . | . पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र । |
| (9) ग्रम्बर मिश्रित मक्का . | . मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और जम्मू तथा काश्मीर । |
| (10) विजय मिश्रित मक्का . | . पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा । |
| (11) सोना मिश्रित मक्का . | . पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश । |
| (12) जवाहर मिश्रित मक्का . | . पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा महाराष्ट्र । |
| (13) किसान मिश्रित मक्का . | . हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल । |
| (14) विक्रम मिश्रित मक्का . | . हरियाणा तथा राजस्थान |

ज्वार

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) संकर ज्वार सी एस एच-1 . | . आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिल-नाडु । |
| (2) संकर ज्वार सी एस एच-2 . | . आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा । |
| (3) स्वर्ण . | . आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा तमिल-नाडु । |

बाजरा :

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) संकर बाजरा संख्या 1 . | . उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिल-नाडु तथा मैसूर । |
| (2) संकर बाजरा संख्या 2 . | . गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर तथा राजस्थान । |
| (3) संकर बाजरा संख्या 3 . | . गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर तथा राजस्थान । |
| (4) संकर बाजरा संख्या 4 . | . उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिल-नाडु, राजस्थान, मैसूर तथा महाराष्ट्र । |

1

2

कपास :

(1) बूरी-147	}	महाराष्ट्र
(2) बूरी-1007		
(3) ए के-235		
(4) ए के-277		
(5) विरतार 197-3		
(6) देवीराज 170-सी-2		
(7) लक्ष्मी		
(8) वाई-1		
(9) गोरानी-22		
(10) संजय		
(11) कपास 320-एफ	}	राजस्थान
(12) दिग्विजय		

सोयाबीन :

- | | | | |
|----------------|---|---|------------------------------|
| (1) क्लार्क-G3 | . | . | पंजाब तथा मध्य प्रदेश । |
| (2) ब्रग्ग | . | . | मैसूर, पंजाब तथा मध्य प्रदेश |

भिन्डी :

- | | | | |
|-------------------|---|---|---------------------------|
| पुसा-सावनी भिन्डी | . | . | उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली । |
|-------------------|---|---|---------------------------|

मंगफली :

- | | | | |
|----------|---|---|------------|
| एस बी-11 | . | . | महाराष्ट्र |
|----------|---|---|------------|

यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1969 से लागू होगी

[सं० पत्र 4(20)/68-बीज विकास]

एस० ओ० 4048—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) के खण्ड 6 की धारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय बीज समिति के परामर्श के बाद निम्न तालिका के क्रमशः स्तम्भ (2) और (3) में लिखित अंकुरण और शुद्धता की सीमा को एतद्वारा विनिश्चित करती है जो कि उक्त तालिका के स्तम्भ (1) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित

अधिसूचित किस्मों के बीजों की अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमा होंगी, अर्थात् :—

तालिका

किस्म	अंकुरण की न्यूनतम सीमा प्रतिशत में	शुद्धता की न्यूनतम सीमा प्रतिशत में
1	2	3
धान :		
(1) ताईचुंग-65	70	97
(2) ताईचुंग नेटिव-1	70	97
(3) आई आर-8	70	97
(4) जया	70	97
(5) पदमा	70	97
(6) सी० ओ०-25	70	97
(7) ए० डी० टी-27 }		
(8) आई० आर०-49	70	97
(9) सोना-351	70	97
(10) बासमती-217	70	97
गेहूं :		
(1) शरवती सोनारा	80	97
(2) कल्या सोना	80	97
(3) एस० 331	80	97
(4) सोनालिका	80	97
(5) सेफ़ लरमा	80	97
(6) एन पी-884	80	97
(7) एन पी-852	80	97
(8) सी०-306	80	97
(9) पी० बी०-18	80	97
मक्का :		
(1) संकर मक्का गंगा-1	80	97
(2) संकर मक्का गंगा-101	80	97
(3) संकर मक्का रणजीत	80	97

1	2	3
(4) संकर मक्का गंगा-3	80	97
(5) संकर मक्का गंगा सेफड-2	80	97
(6) संकर मक्का हिम-123	80	97
(7) संकर मक्का हि-स्टार्च	80	97
(8) संकर गंगा-5	80	97
(9) भ्रम्बर मिश्रित मक्का	80	97
(10) विजय मिश्रित मक्का	80	97
(11) सोना मिश्रित मक्का	80	97
(12) जवाहर मिश्रित मक्का	80	97
(13) किसान मिश्रित मक्का	80	97
(14) विक्रम मिश्रित मक्का	80	97
ज्वार :		
(1) संकर ज्वार सी एस एच 1	70	97
(2) संकर ज्वार सी एस एच 2	70	97
(3) स्वर्ण	70	97
बाजरा :		
(1) संकर बाजरा संख्या 1	70	96
(2) संकर बाजरा संख्या 2	70	96
(3) संकर बाजरा संख्या 3	70	96
(4) संकर बाजरा संख्या 4	70	96
कपास :		
(1) बूरी-147	65	95
(2) बूरी-1007	65	95
(3) ए के-235	65	95
(4) ए के-277	65	95
(5) बिरलार 197-3	65	95
(6) देवीराज 170-सी-2	65	95
(7) लक्ष्मी	65	95
(8) घाई-1	65	95
(9) गौरानी-22	65	95

1	2	3
(10) संजय	65	95
(11) कपास 320-एफ	65	95
(12) विभिन्न	65	95
सोयाबीन		
(1) क्लार्क-65	70	96
(2) ब्रग	70	96
भिन्डी		
पूसा—सावनी भिन्डी	60	98
मूंगफली		
एस बी-11	70	97

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1969 को प्रवृत्त हो जायेगी ।

[सं० फ० 4 (10)68—बीज विकास]

सं० मु० हु० बर्नी, संयुक्त सचिव ।

